



icmr | **NIMR**
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH | NATIONAL INSTITUTE OF
MALARIA RESEARCH

आई.सी.एम.आर.-राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
ICMR-National Institute of Malaria Research
Department of Health Research
Ministry of Health and Family Welfare, Government of India


No. 2/5/2022-23/6/Store (P)

April 10, 2023

Invitation of quotations

Interested vendors/firms are requested to send their Quotation through speed post or registered post (no other mode of correspondence will be entertained) with a validity of 60 days for the item mentioned below in a sealed pack envelope within ten days i.e. 20.04.2023 upto 3.00 pm in the name of **Director, Gate No. 1, NIMR, Sector-8, Dwarka, New Delhi-110 077**. Kindly mention **No. 2/5/2022-23/6/Store_JD_Antibody (P)** with due date on the top of sealed envelope. Details of the required item is given below:

Sl. No.	Specification(s) of Monoclonal Antibody production.
1.	Monoclonal Antibody Development using Purified Antigen
2.	Phase I: Anti-sera Development (in 4 Mice)
3.	Phase II: Fusion and Screening for Positive Clone
4.	Phase III: sub-cloning and Screening for 2 Positive Clones and Isotyping
5.	Phase IV: Large Scale production and Purification of mAb Deliverables:
6.	• 10 mg purified antibody from one selected clone (IgG, Protein-G affinity purified) or 10 mg IgM (ammonium sulphate precipitated).
7.	• Minimum 2 positive and established clones
8.	• Isotyping and other data.
9.	• All clones should be maintained (cryo-preserved) for 1 year after the project completion
10.	• Clones should be guaranteed ELISA and WB positive against the immunogen. It should work on other application depending on the immunogenicity of the protein.
11.	• Maximum duration: 20-26 weeks


Head of Store

हमारे संस्थान मे आपके हिन्दी पत्रों का स्वागत है।

सैक्टर -8 द्वारका
नई दिल्ली -110077, भारत
Dwarka, Sector - 8
New Delhi - 110077, India

दूरभाष/Tel: +91-11-25307103, 25307104, 25361092, 25361093 फ़ैक्स/Fax: +91-11-25307177
ईमेल/E-mail: director@mcrcindia.org | website: www.nimr.org.in



icmr | **NIMR**
INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH | NATIONAL INSTITUTE OF MALARIA RESEARCH

आई.सी.एम.आर.-राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
ICMR-National Institute of Malaria Research
Department of Health Research
Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

नं.: 2/5/2022-23/6/भंडार (P)

10 अप्रैल 2023

दर सूचियों के लिए आमंत्रण

इच्छुक विक्रेता/फर्म से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए मर्दों हेतु 60 दिनों की वैधता के साथ मोहरबंद लिफाफे में दिनांक 20/04/2023 अपराह्न 3.00 बजे तक 10 दिनों के भीतर दर सूची निदेशक, द्वार संख्या १, एनआईएमआर, सैक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली-110077 को स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत पोस्ट (पत्राचार का कोई अन्य प्रकार स्वीकार्य नहीं होगा) से भेजें। कृपया मुहरबंद लिफाफे पर नियत तिथि के साथ इस नं.- 2/5/2022-23/6/Store_JD_Antibody (P) का उल्लेख करें। अपेक्षित मर्दों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी विनिर्देशों का उत्पादन
1.	Monoclonal Antibody Development using Purified Antigen
2.	Phase I: Anti-sera Development (in 4 Mice)
3.	Phase II: Fusion and Screening for Positive Clone
4.	Phase III: sub-cloning and Screening for 2 Positive Clones and Isotyping
5.	Phase IV: Large Scale production and Purification of mAb Deliverables:
6.	• 10 mg purified antibody from one selected clone (IgG, Protein-G affinity purified) or 10 mg IgM (ammonium sulphate precipitated).
7.	• Minimum 2 positive and established clones
8.	• Isotyping and other data.
9.	• All clones should be maintained (cryo-preserved) for 1 year after the project completion
10.	• Clones should be guaranteed ELISA and WB positive against the immunogen. It should work on other application depending on the immunogenicity of the protein.
11.	• Maximum duration: 20-26 weeks

भण्डार प्रमुख

हमारे संस्थान में आपके हिन्दी पत्रों का स्वागत है।

सैक्टर -8 द्वारका
नई दिल्ली -110077, भारत
Dwarka, Sector - 8
New Delhi - 110077, India

दूरभाष/Tel:+91-11-25307103, 25307104, 25361092, 25361093 फैक्स/Fax:+91-11-25307177
ईमेल/Email: director@mrcindia.org | website: www.nimr.org.in